



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ 1940 (श10)
(सं0 पटना 505) पटना, वृहस्पतिवार 31 मई 2018

सं0 06—सू०प्रा०—19/2012—651

सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

28 मई 2018

विषय:— दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) की शाखा खोले जाने हेतु STPI को लीज (30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में सूचना प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011 प्रतिपादित किया गया था, जिसमें उद्योगों के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति भी समाहित है। उक्त नीति में यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि राज्य सरकार आई०टी० प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचना को विकसित करने एवं आई०टी० आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु IT/ITES इकाईयों के लिये उपयुक्त सरकारी जमीन की पहचान कर आरक्षित करेगी।

2. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धसरकारी पत्रांक—STPI/HQ/PDC/05/215 दिनांक 21.03.2017 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि STPI की शाखा खोले जाने हेतु दरभंगा में दो एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जाय, ताकि उक्त स्थलों पर STPI के द्वारा निर्माण कराया जा सके।

3. सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना से आई०टी०आई, दरभंगा में 02 (दो) एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार,

पटना के पत्रांक-2318 दिनांक 26.09.2017 के द्वारा उक्त चिह्नित भूमि के अन्तर्विभागीय हस्तांतरण से संबंधित सहमति पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया। तत्पश्चात् समाहर्ता, दरभंगा से भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में समाहर्ता, दरभंगा ने पत्रांक-134 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा आई०टी०आई० दरभंगा परिसर के 02 (दो) एकड़ भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। चिह्नित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

अंचल/ मौजा	थाना नं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	किस्म	आसामी का नाम	चौहद्दी
बहादुरपुर	236	346	797 (नया)	02 एकड़ (02 बिगहा, 05 कट्टा, 16 धूर)	टेक्नीकल विभाग, बिहार सरकार	श्रम एवं नियोजन विभाग, बिहार सरकार	उ०-नं० हाजा द०-मुख्य सड़क पू०-फकीर प्रा० वगैरह वो रास्ता, अन्य। प०-नं० हाजा

4. राज्य में यदि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, तो आने वाले समय में यह संस्था IT/ITES प्रक्षेत्र के छोटे एवं मध्यम दर्जे के निवेशकों के लिए लाभकारी साबित होगा। इसके तहत एक ही कलस्टर के अन्तर्गत उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होगी; साथ-ही-साथ सॉफ्टवेयर विकास, बीपीओ एवं अन्य तकनीकी सहयोगी सेवाएँ भी निवेशकों को उपलब्ध हो पाएगी।

6. वर्णित स्थिति में दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) की शाखा खोले जाने हेतु STPI को लीज (30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उक्त संकल्प को दिनांक 21.05.2018 को मद् संख्या-08 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 505-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>